



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 12-07-2022

आज दिनांक 12-07-2022 को रिजर्व पुलिस लाइन्स वाराणसी में 282 रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया गया ।

दीक्षांत समारोह परेड के मान प्रमाण मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार सिंह(आई0पी0एस0) अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध), कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा ग्रहण किया गया । दीक्षांत समारोह परेड में श्री अमित कुमार (आई0पी0एस) पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं अपराध), श्री आर.एस. गौतम(आई0पी0एस) पुलिस उपायुक्त(काशी जोन), श्री विनय कुमार सिंह अपर पुलिस उपायुक्त (प्रोटोकॉल), श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (सहायक पुलिस आयुक्त लाइन्स), श्री उमेश कुमार दूबे (प्रतिसार निरीक्षक) कमिश्नरेट वाराणसी व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ भारी संख्या में जन-समूह द्वारा उपस्थित रहकर रिक्रूट आरक्षियों का उत्साहवर्धन किया गया । कार्यक्रम के दौरान रिक्रूट आरक्षियों के परिजन भी उपस्थित रहें ।

मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार सिंह(आई0पी0एस0) अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध), कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा दीक्षांत समारोह परेड का निरीक्षण किया गया । दीक्षान्त परेड का नेतृत्व प्रथम परेड कमाण्डर प्रशिक्षु आरक्षी मुकेश पाण्डेय, द्वितीय परेड कमाण्डर प्रशिक्षु आरक्षी चन्दन यादव व तृतीय परेड कमाण्डर प्रशिक्षु आरक्षी निलेश मिश्रा द्वारा किया गया । पुलिस लाइन्स वाराणसी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में अपनी 06 माह की ट्रेनिंग पूरी करने वाले 282 प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों को उनके पद एवं कर्तव्यों के साथ देश एवं जनता की सेवा करने की शपथ

दिलाई गयी । मुख्य अतिथि द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को पुलिस परिवार में जुड़ने के इस अवसर पर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक बधाई दी गयी । प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सर्वांग सर्वोत्तम रहे आरक्षी अम्बुज मिश्रा व आंतरिक परीक्षा में प्रथम रहे आरक्षी शादाब अहमद और बाह्य परीक्षा में प्रथम रहे आरक्षी सुधीर मौर्या को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए और गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।

पुरस्कार विजेताओं का विवरण

अन्तः कक्षीय				
क्र.सं.	विषय	प्रशिक्षु का नाम	चे.नं.	प्राप्तांक / पूर्णांक
1	प्रथम समूह(विधि प्रथम)	शादाब अहमद	20	70 /75
2	द्वितीय समूह(विधि द्वितीय)	शान्तनु मिश्र	226	72 /75
3	तृतीय समूह(पुलिस विज्ञान प्रथम)	रण प्रताप शाहू	21	98 /100
4	चतुर्थ समूह(पुलिस विज्ञान द्वितीय)	अरुण कुमार रजक	245	86 /100
5	पंचम समूह(सामान्य ज्ञान)	जय प्रकाश	202	48 /50
बाह्य कक्षीय(आई0टी0)				
	पदाति प्रशिक्षण	सुधीर मौर्य	96	226 / 250
	शस्त्र प्रशिक्षण	रोहित गोस्वामी	172	178 / 200
	फिल्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स	अम्बुज मिश्रा	153	176 / 200
बाह्य कक्षीय(पी0टी0)				
	शारीरिक प्रशिक्षण	विकास सरोज	73	177 / 200
संस्था प्रमुख द्वारा मूल्यांकन(साक्षात्कार) –				
शंशाक साह , चे0न0-62 , टोली नं0-7 , 93/100				
सर्वांग सर्वोत्तम				
अम्बुज मिश्रा , चे0न0 - 153 , टोली नं0 - 7 1143.35/1350				
प्रथम परेड कमाण्डर:				
मुकेश पाण्डेय , चे0न0- 193 , टोली नं0-09				
द्वितीय परेड कमाण्डर:				
चन्दन यादव , चे0न0- 169 , टोली नं0-08				
तृतीय परेड कमाण्डर:				
निलेश मिश्रा , चे0न0- 57 , टोली नं0-03				
उत्कृष्ट अध्यापक	पंचम समूह(सामान्य ज्ञान)	श्री सुनील कुमार चौरसिया		
उत्कृष्ट आई0टी0आई0	रामू चौहान	टोली नं0 - 07		
उत्कृष्ट पी0टी0आई0	मिथिलेश कुमार	टोली नं0 - 02		
मेजर आर0टी0सी0	शिवपूजन यादव			
प्रभारी आर0टी0सी0	उ0नि0 स0पु0 अजीत कुमार सिंह			
कमिश्नरैट पी0टी0आई0	संजीत कुमार पाण्डेय			